### **Universus Photo Imagings Limited**

(Formerly known as JINDAL PHOTO IMAGING LIMITED) CIN: L22222UP2011PLC103611 Corp. Off.: Plot No. 87, Sector-32, Institutional Area, Gurugram Haryana -122001. Tel: 91-0124-6925100 Website: <u>www.universusphotoimagings.com</u>

#### UPIL/DE-PT/SE/2024-25

To, **The Manager Listing** National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 Date: 14th August, 2024

To, **The Manager Listing** BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

#### Sub: Submission of newspaper cutting for publication of Financial Results for the First Quarter ended on June 30, 2024

#### (Scrip Code: BSE: 542933 and NSE: UNIVPHOTO)

Dear Sir/Madam

In accordance with Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper cutting of Financial Results for the First Quarter ended on June 30, 2024 published in "Financial Express" and "Jansatta" on August 14, 2024.

This is for your information and records please.

Thanking you, Yours Sincerely,

For Universus Photo Imagings Limited

Suresh Kumar Company Secretary ACS: 41503 Encl:A/a

### UNIVERSUS PHOTO IMAGINGS LIMITED

CIN :- L22222UP2011PLC103611

Regd. Office : 19th km, Hapur, Bulandshahr road, PO Guloathi Bulandshahr , Uttarpradesh - 245408 Corporate. Office : Plot No 87, Sector 32, Institutional Area, Gurugram, Harvana - 122001 Unaudited Financial Results For the Quarter Ended 30th June 2024

		Rs in la	khs except EPS				Rs in lal	chs except EP
	Stand	alone			0	Conso	lidated	
(	Quarter ende	d	Year ended	Particulars	(	Quarter ende	d	Year ended
June 30, 2024 Unaudited	March 31, 2024 Audited	June 30, 2023 Unaudited	March 31, 2024 Audited		June 30, 2024 Unaudited	March 31, 2024 Audited	June 30, 2023 Unaudited	March 31, 202 Audited
922.00	959.00	767.00	3,245.00	Total Income from Operations	922.00	959.00	767.00	3,245.00
765.00	633.00	1,119.00	4,027.00	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	765.00	633.00	1,119.00	4,027.00
765.00	633.00	1,119.00	4,027.00	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) and before non-controlling interest and share of profit from associate, attributable to Equity Holders of the parent	(1,010.00)	(4,253.00)	(3,243.00)	(18,697.00)
578.00	538.00	843.00	3,089.00	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, non- controlling interest and share of profit from asso- ciate, attributable to Equity Holders of the parent	(1,197.00)	(4,348.00)	(3,519.00)	(19,635.00)
579.00	540.00	843.00	3,092.00	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)) attributable to Equity Holders of the parent	(1,163.00)	(3,811.00)	(3,290.00)	(18,440.00)
1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/-each)	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
			60,567.00	Other Equity (excluding revaluation reserve)	6	8		85,264.00
5,28	4.92	7.70	28.22	Basic & Diluted Earnings / (Loss) Per Share	(10.94)	(39.72)	(32.14)	(179.37)

Notes

The Financial Results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors at their respective meetings held on 13.08.2024 and Limited Review of these results has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.

These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 2 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereunder.

Dividend Receivable Rs 17427.59 lakhs from foreign associate company JPF Netherlands BV was declared and recognised in income during the year 2021-22 and is pending due to 3 shortage of cash flow due to increase in the energy cost in Europe, lower base of sales and production volume, increase in production cost, increase in overheads and the declining of the demand due to the ongoing crises in Europe. In the opinion of the management, the amount is good and recoverable and no provision is required to be made in the books of accounts although there is delay in receipt of amount due to unfavourable conditions.

The figures for the Quarter ended March 31, 2024 are balancing figures between the audited figures of the full Financial Year and the published year-to-date figures upto the third Quarter of the Financial Year.

Figures for the previous quarters/period have been regrouped /rearranged wherever required, to make them comparable. S

By order of the Board For Universus Photo Imagings Limited Sd/-

Shailendra Sinha

DIN:08649186

(Managing Director)

Place : Gurugram Date : 13.08.2024

### **CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED**

Regd. Office : 19th K.M., Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Bulandshahr (U.P.)

Head Office: Plot No. 12, Local Shopping Complex, Sector - B -1, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

CIN:L33200UP1993PLC05474 Tel. No.: 011 - 40322100 E-mail:cs\_cfhl@jindalgroup.com website: www.consofinvest.com

### EXTRACTS OF THE STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024

PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 30.06.2023	Year Ended 31st March 2024
	Un-audited	Un-audited	Audited
Total Income from operations	1775	1,380	5,169
Net Profit for the period (before Exceptional items and tax)	1,759	1,355	5,090
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,759	1,355	5,090
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordiniary Items)	2,296	1,034	4,646
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	6,091	3,041	6,480
Total Comprehensive Income for the period attributable to owner of the parent	6,091	3,041	6,480
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/- each)	3233	3,233	3,233
Other Equity (excluding Revaluation Reserve)		5.55 5	77,583
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) on Net Profit (Not annualised)	7.10	3.20	14.37

WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024

Binani

BRAL BINANI GROUP

12

**FINANCIAL EXPRESS** 

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

### **BINANI INDUSTRIES LIMITED**

Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town Rajarhat Main Road, PO Hatiara, Kolkata - 700 157, India Corporate Office: Mercantile Chambers, 12 J.N.heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. CIN No. L24117WB1962PLC025584

### Statement of Standalone & Consolidated Unaudited Results for Quarter ended 30th June, 2024

(Rs in Lakh)

Sr.		- 12	S	TANDALON	IE	CONSOLIDATED				
No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED			YEAR ENDED	QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.202	
4	T-1-11	Unaudited		Unaudited		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1.	Total Income from Operations	0	28	1	28	0	28	1	28	
2.	Net Profit/(Loss)for the period	1 1								
	(before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	(53)	(47)	(56)	(584)	(53)	(178)	(56)	(715	
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax	1 1								
	(after Exceptional and/or Extraordinary items	(53)	(47)	(56)	(584)	(53)	(178)	(56)	(715	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	1.000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1. <b>1</b> . Society <b>1</b> .	• /////// 5 55	
2011	(after Exceptional and/or extraordinary items)	817	(47)	(56)	(584)	817	(178)	(56)	(715	
5.	Total Comprehensive Income for the period	1 1					-12 21-			
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	1 1								
	and Other Comprehensive Income (after tax)]								() <del>.</del>	
6.	Equity Share Capital	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)									
	1. Basic:	2.60	(0.15)	(0.18)	(1.86)	2.60	(0.57)	(0.18)	(2.28	
	2. Diluted:	2.60	(0.15)	(0.18)	(1.86)	2.60	(0.57)	(0.18)	(2.28	

The Above financial Result of a Quarterly Financial Result filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/2016 dated July 5, 2016. The Full format of the financial Result for the guarter ended 30th June 2024 and Explanatory Notes are available on the stock exchange website at www.bseindia.com, https://www.nseindia.com/, https://www.cseindia.com/ and on the company's website at https://binaniindustries.com/

> For Binani Industries Limited Sd/ Archana Manoj Shroff Managing Director Cum CFO

Place : Mumbai Date : 13th August, 2024

### **BIGBLOC CONSTRUCTION LIMITED**

CIN: L45200GJ2015PLC083577

REGD. OFF.: Office No. 908, 9th Floor, Rajhans Montessa, Dumas Road, Magdalla, Surat - 395 007 (GUJARAT) Ph.: +91-261-2463262 / 63 Email : bigblockconstruction@gmail.com, website : www.nxtbloc.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

	1				1		Conversion of the Second	in Lakhs)	
	and the second second		ALONE	the second s		CONSOLIDATED			
PARTICULARS	Quarter Ended 30/06/2024	Quarter Ended 31/03/2024	Quarter Ended 30/06/2023	Year Ended 31/03/2024	Quarter Ended 30/06/2024	Quarter Ended 31/03/2024	Quarter Ended 30/06/2023	Year Ended 31/03/2024	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total Income from Operations	1,649.39	2,553.15	2.976.64	11,045.63	5,226.06	7,177.76	5,493.85	24,736.58	
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(48.27)	167.27	412.69	1,482.75	433.11	1,130.33	817.44	4,111.19	
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(48.27)	167.27	412.69	1,482.75	433.11	1,130.33	817.44	4,111.19	
Net profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(57.72)	93.71	308.78	1,103.05	303.31	864.66	590.07	3,068,83	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(57.72)	84.15	308.78	1093.49	314.15	856,46	595.17	3,076.57	
Paid up Equity Share Capital		e 04		141	5,76	Alia	e - 60		
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet as on 31/03/2024			( <del>1))</del>	4,633.37			•••••	9,447.00	

Note:

1. Financial Results has been prepared in accordance with The Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder.

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors at their respective meetings held on 13th August 2024 and limited review of these results has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.

3. The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange's websites (www.nseindia.com) and also on the Company's website at www.consofinvest.com.

Place: New Delhi Date: 13th August 2024 for Consolidated Finvest & Holdings Limited Sanjiv Kumar Agarwal Managing Director - DIN: 01623575

=	<b>:G</b>	TE	

CIN: L24111UR1985PLC015063 Regd. Office: Sohan Nagar, P.O. Charubeta, Khatima-262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand Phone: (05943) 250153-57, Fax: (05943) 250158, Website - www.esterindustries.com, Email - investor@ester.in

THE WAS SHOULD BE AND AND AND AND A SUPPORT AND A SUPPORT OF AND A SUPPORT AND A SUPPORT

		Stand	alone		Consolidated				
Particulars	Current quarter ended	Preceeding quarter ended 31-Mar-24 (Audited) (Refer Note No. 3)	Previous year ended 31-Mar-24 (Audited)	Corresponding quarter ended in the previous year 30-Jun-23 (Unaudited)	Current quarter ended 30-Jun-24 (Unaudited)	Preceeding quarter ended	Previous year ended	Corresponding quarter ended in the previous year	
	30-Jun-24					31-Mar-24 (Audited) (Refer Note No. 3)	31-Mar-24	30-Jun-23	
	(Unaudited)						(Audited)	(Unaudited)	
Total income from operations	24,377.02	22,025.56	88,165.58	20,647.45	29,235.7	27,995.05	1,09,046.28	26,698.39	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items)	(260.11)	(1,196.30)	(5,728.82)	(674.87)	(1,665.61)	(2,652.28)	(13,500.08)	(2,353.72)	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items)	(260.11)	(1,196.30)	(5,728.82)	(674.87)	(1,665.61)	(2,652.28)	(13,500.08)	(2,353.72)	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)	(204.19)	(916.25)	(4,333.43)	(527.63)	(1,609.69)	(2,372.23)	(12,104.69)	(2,206.48)	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(208.11)	(988.62)	(4,409.98)	(529.06)	(1,614.11)	(2,430.84)	(12,181.11)	(2,212.45)	
Equity Share Capital	4,697.70	4,697.70	4,697.70	4,169.69	4,697.70	4,697.70	4,697.70	4,169.69	
	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	Particularsended30-Jun-24(Unaudited)30-Jun-24(Unaudited)Total income from operations24,377.02Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)](208.11)	Particularsendedended30-Jun-2431-Mar-24(Unaudited)(Audited)(Inaudited)(Audited)(Refer Note No. 3)24,377.02Total income from operations24,377.02Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)](208.11)	Particularsendedendedended30-Jun-2431-Mar-2431-Mar-2430-Jun-2431-Mar-24(Unaudited)(Audited)(Audited)(Refer Note No. 3)(Audited)Total income from operations24,377.0222,025.56Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)(1,196.30)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)(1,196.30)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(206.11)(1,196.30)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)(916.25)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)(916.25)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)(916.25)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)(916.25)Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)](208.11)(988.62)	Particularsendedendedendedendedin the previous year30-Jun-2431-Mar-2431-Mar-2430-Jun-23(Unaudited)(Audited)(Audited)(Audited)(Unaudited)Total income from operations24,377.0222,025.5688.165.5820,647.45Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)(1,196.30)(5,728.82)(674.87)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)(1,196.30)(5,728.82)(674.87)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)(916.25)(4,333.43)(527.63)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(208.11)(988.62)(4,409.98)(529.06)	Particularsendedendedendedin the previous yearended30-Jun-2431-Mar-2431-Mar-2430-Jun-2330-Jun-24(Unaudited)(Audited) (Refer Note No.3)(Audited)(Unaudited)(Unaudited)Total income from operations24,377.0222,025.5688,165.5820,647.4529,235.7Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)(1,196.30)(5,728.82)(674.87)(1,665.61)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(260.11)(1,196.30)(5,728.82)(674.87)(1,665.61)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extra ordinary items)(204.19)(916.25)(4,333.43)(527.63)(1,609.69)Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)](208.11)(988.62)(4,409.88)(529.06)(1,614.11)	Particularsendedendedendedin the previous yearendedended30-Jun-2431-Mar-2431-Mar-2430-Jun-2330-Jun-2331-Mar-2410-Jun-2411-Mar-2431-Mar-2430-Jun-2330-Jun-2431-Mar-2410-Jun-2411-Mar-2411-Mar-2430-Jun-2330-Jun-2431-Mar-2410-Jun-2511-Mar-2411-Mar-2411-Mar-2430-Jun-2330-Jun-2431-Mar-2410-Jun-2611-Mar-2411-Mar-2411-Mar-2410-Jun-2330-Jun-2431-Mar-2410-Jun-2711-Mar-2411-Mar-2411-Mar-2410-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2410-Jun-2812-Mar-2411-Mar-2411-Mar-2411-Mar-2410-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2410-Jun-2912-Mar-2412-Mar-2411-Mar-2411-Mar-2410-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2410-Jun-2912-Mar-2412-Mar-2412-Mar-2412-Mar-2410-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2410-Jun-2310-Jun-2310-Jun-2410-Jun-2	Particularsendedendedendedin the previous yearendedendedendedendedended30-Jun-2431-Mar-2431-Mar-2430-Jun-2330-Jun-2330-Jun-2431-Mar-24Jun-24Jun-24Jun-2431-Mar-2430-Jun-2330-Jun-2331-Mar-2431-Mar-24Jun-24Ju	

#### Earning Per Share (Face value of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)

	and free second and							
(a) Basic (in Rs.) :	(0.08)	0.13	0.44	1.56	0.62	1.22	0.85	4.36
(b) Diluted (in Rs.) :	(0.08)	0.13	0,44	1.56	0.62	1.22	0.85	4.36

Note :

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on August 13, 2024. 2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for quarter ended on 30th June, 2024 filed with stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results is available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website i.e., www.nxtbloc.in.

For BIGBLOC CONSTRUCTION LTD.

Sd/-

Place : Surat Date : 13/08/2024

NARESH SABOO MANAGING DIRECTOR

### MEDICAMEN BIOTECH LTD.

Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place, New Delhi-110019

CIN: L74899DL 1993PLC056594 E-mail: cs@medicamen.com, www.medicamen.com

Un-audited standalone and consolidated financial results for the guarter ended as on 30th June 2024

1			Stan	dalone		Consolidated				
SI. No.	Particulars	Three months period ended			Year ended	Three m	Year ended			
		Un-audited 30.06.2024	Audited 31.03.2024	Un-audited 30.06.2023	31.03.2024	Un-audited 30.06.2024	Audited 31.03.2024	Un-audited 30.06.2023	Audited 31.03.2024	
1	Total income from operations (net)	4205.69	4555.04	4088.26	17468.88	4363,49	4788,57	4232.23	18163.19	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	301.51	372.51	515.33	1688.79	155.63	265.56	468.33	1307.56	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	301.51	372.51	515.33	1688.79	155.63	265.56	468.33	1307.56	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	225.70	310.31	441.70	1329.80	79.87	204.04	394.70	949.40	
5	Total comprehensive income for the period {Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)}	225.70	310.31	441.70	1329.80	79.87	204.04	394.70	949.40	
6	Equity Share Capital	1271.46	1271.46	1265.11	1271.46	1271.46	1271.46	1265.11	1271.46	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)									
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operation)									
	Basic:	1.78	2.45	3,49	10.50	0.63	1.61	3.12	7,50	
-	Diluted:	1.78	2.45	3.49	10.50	0.63	1.61	3.12	7.50	

### Notes

The Un-audited financial results for the quarter ended have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13 August 2024

This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

The company operates only in one business segment, viz. Pharmaceuticals formulations, hence segment reporting is not applicable

The Earning Per Share has been calculated as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 33 -Earning per Share

Limited review report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.

The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable.

For Medicamen Biotech Limited	52 115 A 51 A
Sd/-	
Rahul Bishnoi	Place : New Delhi
Chairman	Date : 13.08.2024

## TCIEXPRESS

TCI EXPRESS LIMITED CIN: L62200TG2008PLC061781 Regd. Office : Flat Nos. 306 & 307, 1-8-271 to 273, Ashoka Bhoopal Cham

G.,	shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (Other Equity)			77,925.67	2	12		67,056.66	±
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic : (in Rs.) Diluted: (in Rs.)	(0.22) (0.22)	(1.09) (1.09)	(5.19) (5.19)	(0.63) (0.63)	(1.71) (1.71)	(2.83) (2.83)	(14.49) (14.49)	(2.65) (2.65)

### NOTES:

Δ.

1. In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, these standalone financial results ("financial results") for the guarter ended 30 June 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly have been approved by the Board of Directors of Ester Industries Limited ("the Company") at their respective meetings held on 12 August 2024.

2 The above financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting 34, Interim Financial Reporting ('Ind AS 34'), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015 (as amended).

3. Figures for the guarter ended 31 March 2024 are the balancing figures for between audited figures for the full financial year and the reviewed year to date figures up to the third quarter of the respective financial year.

On May 1, 2024. Company entered into an agreement with Loop Industries Inc. having principal office in Canada, to form a 50:50 joint venture based in India ("India JV"). The purpose of the India JV is to build and operate an Infinite Loop manufacturing facility in India which will manufacture of DMT and/or MEG through depolymerisation of PET and/or Polyester waste using patented Loop technology Subsequently on 22 July 2024, Company has incorporated a private limited company in the name of "ESTER LOOP INFINITE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED ("ELITe")" in India as wholly owned subsidiary of the Company. ELITe is intended to be the joint venture company between the Company and Loop Industries Inc. ("Loop") and both the Company and Loop will hold 50% in ELITe as per the joint venture agreement dated 1st May, 2024 mentioned above.

5. Ind AS 108 operating segment is a component of the Company that engages in business activities whose operating results are regularly reviewed by the company's Chief Operating Decision Maker (CODM) to make decisons about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and for which discrete financial information is available. Accordingly, the Company has identified its operating segments as below:

a) Polyester chips and film

Recorder (evolution Revolution Records) on

b) Speciality polymers

6. During the previous guarter ended 31 March 2024, the Company has raised money by the way of issuing 1,05,60,250 Equity Shares of face value of Rs 5 per equity share on preferential basis for cash to Promoter & Promoter Group and Non-Promoter Category at a price of Rs. 94.60 per equity share (including a premium of Rs. 89.60 per equity share) aggregating to 9,990 lacs. The issue was made in accordance with applicable provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements). Regulations, 2018 ['SEBI (ICDR)]. Expenses incurred in relation to preferential allotment amounting to Rs.13.57 lacs (net of taxes) have been adjusted from securities premium account.

		financialexp.epapr.ir
Date : 12 August 2024		Chairman & CEO
Place: New Delhi		Arvind Singhania
		Sd/-
		For Ester Industries Limited

LEADER IN EXPRESS

S.P. Road, Secunderabad - 500 003, Telangana Corp. Office : TCI House, 69, Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122 001, Harvana

Tel.: + 91 124 2384090-94, E-mail: secretarial@tciexpress.in, Website: www.tciexpress.in

### STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

### (Rs. in Crores except as stated otherwise)

			Standalone	and the second second	Consolidated			
		Quarte	rEnded	Year Ended	Quarte	Year Ender		
Sr. No.	Particulars	30th Jun, 2024	30th Jun, 2023	31st Mar, 2024	30th Jun, 2024	30th Jun, 2023	31st Mar, 2024	
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1.	Total Income from operations (net)	295.26	306.35	1,260.97	295.26	306.35	1,260.97	
2.	Net Profit / (Loss) for the period ( before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	30.46	42.87	173.97	29.65	42.87	173.97	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	30.46	42.87	173.97	29.65	42.87	173.97	
4,	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	23.11	32.33	131.69	22.30	32.33	131.69	
5.	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss)for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	22.82	32.60	132.26	22.01	32.60	132.26	
6.	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2)	7.67	7.66	7.67	7.67	7.66	7.67	
$7_{c}$	Other Equity			696.38			696.30	
8.	Earning per share -EPS (not annualized)-In Rs.		in the second se			1		
1	Basic Earning Per Share	6.04	8.41	34.36	5.82	8.41	34.36	
	Diluted Earning. Per Share	6.02	8.40	34.27	5.80	8.40	34.27	

### Notes:-

1 The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's Website (www.tciexpress.in).

2 The Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2024 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 13th Aug, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out the limited review of the same.

Place: Gurugram Date : August 13, 2024 **TCI Express Limited Chander Agarwal Managing Director**  AU SMALL FINANCE

Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 20 Aug 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

CHARKHI DADRI - 9001090134988510 | GURGAON URBAN ESTATE 007 9001090138774260 9001090134221790 | GURUGRAM - SECTOR 15 23660000755578 23660000761826 | NARNAUL REWARI ROAD 9001090134655920

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction. Sd/-

Manager AU Small Finance Bank Limited 1

SI. No.

2

3

5

7

8

Place : New Delhi

Date : 13.08.2024

Particulars

Total Expenses

Tax Expenses

Profit/ loss before tax.

Profit/(loss) for the year

Earnings per share

Paid- up Equity share capital

(Before & after extraordinary Items)

Total Income from operations (net)

Total Comprehensive Income for the year

		Ja	रिव्वत जगन लैम्प्स CIN: L31501HR1993 पजा कार्यालयः नरेला पियाओ मनिहारी रोड, कुंड फोन +91 8814805077व ईमेलः Sales@jaganla	ली, जिला सोनीपत		128 (11.7 - 1
			30.06.2024 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखाप	रीक्षित वित्तीय परि	णामों का विवरण	(लाख रूपये में)
	Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in	क्र. सं	विवरण	तिमाही समाप्ति 30.06.2024	तिमाही समापित 30.06.2023	वर्षं समाप्ति 31.03.2024
LOAN ACAINST C		1		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS	1	संचालनों से कुल आप	1062.6	1048.4	5185.34	
The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 20 Aug 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein.		2	अवचि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, आपवादिक और/पा असाधारण मद)	52.53	69.09	392.75
		3	कर पूर्व अवधि हेतु शुख लाभ/(हानि) (आपवादिक और/वा असाधारण मद पञ्चात)	52.53	69.09	392.75
		4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात्)	37.07	51.41	293.68
In the case of dece heirs. Please note t	ased borrowers, all conditions will be applicable to legal that in the event of failure of the above auction, the bank to conduct another auction without prior intimation.	5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चातु) और अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चातु) शामिल]	37.07	51.41	295.96
		6	इंक्विटी शेयर पुंजी (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मुल्य)	729.52	729.52	729.52
E-Auction Branch	Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)	7	पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित वैलेंस शोट में वर्साए अनुसार आरक्षित निवियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निवि को घोड़वर)	_	-	2299.21
	ASHI MARG - 9001090135036150   BHATINDA -	8	प्रसि शेवर आय (प्रत्येक 10 रुपये का) (जारी और बंद किए गए परिवलन हेतु}-			
2366000081/113	24660000854810   FARIDKOT MOHALLA TALAAB -		1 presura	0.61	0.70	4.02

	14
	MEFCOM
S)	

(Rs. In Crores Except EP)

Reviewed

53.61

49.46

4.15

0.58

3.57

3.57

29.02

1.23

For and on behalf of Board of Directors

Year ended

31-Mar-24

Audited

221.11

202.07

19.04

1.86

17.18

17.21

29.02

5.93

Sdi

**Raktim Acharjee** 

Din: 06722166

Whole Time Director

MEFCOM CAPITAL MARKETS LIMITED Regd. Office:- 5th Floor, Sanchi Building, 77, Nehru Place, New Delhi - 110 019 CIN: L74899DL1985PLC019749

जनसता

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के कथन का सार

(रू० लाखों में, प्रति शेयर डाटा को

क्र०	विवरण		समेकित				
सं०			समाप्त तिमाही				
सं• 1 2 3 4 5		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024		
		अन—अंकेक्षित	अंकेक्षित	अन–अंकेक्षित	अंकेक्षित		
1	कुल आय	3,569.69	8,379.87	2,372.53	21,793.41		
2	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि)	72.29	87.25	175.47	672.38		
3	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	63.99	80.81	410.36	812.82		
4	इक्वीटी शेयर कैपीटल (चुकता) (रू॰ 2/- प्रत्येक)	914.02	914.02	914.02	914.02		
5	रिजर्व (रीवैल्यूवेसन रिजर्व को छोड़कर) (जैसा कि अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)	-	-	-	1,445.96		
6	प्रति शेयर आय बेसिक/तरल (रू॰ 2/- प्रत्येक इक्वीटी शेयर )	0.16	0.19	0.38	1.47		
			एकीकृ	त			
1	कुल आय	4,195.79	9,070.18	2,389.33	23,328.33		
2	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि)	91.15	124.38	183.11	845.36		
3	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	82.85	117.94	418.00	985.80		

टिप्पणीः

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 12.08.2024

सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं चकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत जून 30, 2024 को समाप्त उपरोक्त विस्तारित सार स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया। समेकित एवं एकीकृत वित्तीय परिणामों का निर्धारित प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bseindia.com) एवं कम्पनी की वेबसाइट www.mefcom.in पर उपलब्ध है।

कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2017 भारतीय मानक लेखा ('आईएनडी एएस') को अपनाया किया है (संक्रमण तिथि अप्रैल 01, 2016) और तदनुसार , ये वित्तीय परिणाम 2 (भारतीय लेखा मानकों) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 साथ में एसके अन्दर पठित प्रासांगिक नियमों एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लंखांकन प्रथाओं और नितियों के अनुसार तैयार किये गये।

### 3 पिछली अवधि के आकड़ो की पुष्टि के लिए वर्तमान अवधि के आकड़ों को जहाँ पर आवश्यक था, समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

कृते मैफकॉम कैपीटल मार्किट्स लिमिटेड
हस्ता०/–
विजय मेहत्ता
प्रबन्ध निदेशक
DIN: 00057151

	30 जून 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अले	pgil.com खापरीक्षित वित्तीय	pgindu परिणामों का	सारांश	
			V: 100	-01	(रु. लाख मे
क, सं.	विवरण	30-06-2024 को समाप्ति वर्ष	31-03-2024 को तिमाही वर्ष	30-06-2023 को समाप्ति वर्ष	31-03-2023 के समाप्ति वर्ष
-1943	(नीचे नोट देखें)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीधित)	(लेखापरीक्षित)
1	संचालनी से कुल आय (निवल)	620.62	694.13	1,639.92	4,589.1
Ž	अवधि हेनु शुद्ध लाम/(हानि) (कर पूर्व, आपवादिक और/या असाधारण मंदे)	(253.18)	(192.77)	22.96	(246.75
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुख लाम/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चातु)	(253.18)	(192.77)	22.96	(246.75
ł	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चातु)	(253.18)	(141.09)	17.68	(195.07
i	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और जन्म कुल व्यापक आय (कर पश्चातु) शामिल]	(253.18)	(141.09)	17.68	(195.07
3	इक्विटी होयर पूंजी	597.37	597.37	597.37	597.3
7	आरशित निथि (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाए गए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निथि को छोड़कर)	2	1	í.,	
3	प्रति शेयर आय (जारी एवं बंद परिचालनों के लिए तथा असाधारण मर्दी से पडले) (स. 57- का प्रत्येक)				
	मूलभूत. चरलीकृत:	(2.12) (2.12)	(1.18) (1.18)	0.15 0.15	(1.63
	प्रति शेवर आच (जारी एवं वंद परिचालनों के लिए तथा असाधारण मदों से पहले) (रु. 57- का प्रत्येक)	100000			10450
	मूलभूतः तरसीकृत.	(2.12) (2.12)	(1.18) (1.18)	0.15	(1.63 (1.63

l	Looddood in the Libbooddood for a finite first internet
	9001090134122050   KHANNA_MUNICIPAL COUNCIL AREA -
	9001090139574110   LUDHIANA - 24660000030101 24660000434201
	MOGA_IMPROVEMENT TRUST MARKET - 9001090138436530   MOHAL
	BRANCH - 23660002076721 24660000880880   MUKTSAR_NEW GRAIN
	MARKET - 9001090139475860   ZIRAKPUR_RAKSHA BUSINESS CENTER_RO
	- 9001090139532510
1	

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction. Car

, मुलमूत 0.510.70 4.024.02 0.51 0.70 2. तरलीकृत

उपरोक्त स्टेंडअलोन वितीय परिणामी की लेखापरीक्षा समिति ढारा समीक्षा की गई है और 12 अगस्त, 2024 को आयोजित उनकी बैठकों में निदेशक मंडल डारा अनुमोदित किया गया है। वैचानिक लेखा परीक्षकों ने एक अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राव व्यक्त की है।

Brahmaputra Infrastructure Limited

CIN: L55204DL1998PLC095933

Un- Audited Standalone Financial Results for Quarter Ended June 30, 2024

Regd. Off.: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi-110 037

Reviewed

79.38

70.48

8.90

1.93

6.97

6.97

29.02

2.40

Note: These are extract of unaudited financial results of 30" June 2024, detailed UFR are uploaded on BSE

Portal and on official website of the company at www.brahmaputragroup.com

Quarter ended

30-Jun-24 31-Mar-24 30-Jun-23

Audited

54.01

48.78

5.22

0.73

4.50

4.52

29.02

1.56

उपरोक्त सेवी (एल.ओडीआर) विनिवम, 2015 के विभियमन 33 के तहत स्टॉक एवसचेज में वाखिल 30.06.2024 को समान्त तिमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारंज हैं। 30.06.2024 को समान्य तिमाडी के लिए गैर-लेखापरीक्षित वितीय परिणामों का पूरा प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.jaganlamps.com और स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। ंउपरोक्त दितीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की बारा 133. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 और अन्य मान्यता

प्राच लेखांकन प्रधाओं और नीतियों के तटत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए

निवेशक मंडल की ओर से हस्ता/-आशीष अग्रवाल (प्रबंध निवेशक) हीन 01837337

-uc-	
Manager AU Small Finance Bank Limited	दिनांकः 12.08.2024 स्वयनः कोडली जरियाणा
	Total and the Manual Association of

# **TENNECO FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED**

Regd. Office: DLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F - 79 & 80, Okhla Phase-I, New Delhi-110020, Corp off. 10th Floor, Paras Twin Towers "Tower B" Golf Course Road, Sector 54, Gurugram-122002 Website: www.federalmogulgoetzeindia.net, CIN : L74899DL1954PLC002452 E mail : investorgrievance@tenneco.com Phone: +91 11 49057597 + 91 124 4784530

(Rs. in lacs except Statement of standalone and consolidated unaudited financial results for the guarter ended 30 June 2024 per share data)

			Sta	ndalone		Consolidated			
SI No.	Particulars		Quarter ended 31 March 2024 (Unaudited) (Refer note-4)	rch 2024 ended 30 end udited) June 2023 March		Quarter ended 30 June 2024 (Unaudited)	Quarter ended 31 March 2024 (Unaudited) (Refer note-4)	Quarter ended 30 June 2023 (Unaudited)	Year ended 31 March 2024 (Audited)
1.	Total Income from operations	43,542.94	42,013.70	40,514.62	166,957.19	44,465.10	42,781.36	41,090.40	169,558.37
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,651.34	5,067.41	3.740.65	16,790.54	5,104.66	5,850.92	4,076.87	18,084.50
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,651,34	5,067.41	3,740.65	16,790.54	5,104.66	5,850.92	4,076.87	18,084.50
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,377.86	3,737.32	2.870.56	12,505.15	3,714.86	4,316.67	3,117.84	13,336.47
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3,377.86	4,096.03	2,870.56	12,863.86	3,714.86	4,716.11	3,117.84	13.735.91
6,	Equity Share Capital	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563.21	5,563,21	5,563.21
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic (In Rs) : Diluted (In Rs) :	6.07 6.07	6.72 6.72	5.16 5.16	22.48 22.48	6.38 6.38	7.25 7.25	5,38 5,38	22.81 22.81

Note

The above result is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the these Financial Results are available on the website of the company (http://www.federalmogulgoetzeindia.net /web/index.html).

2. The above financial results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and thereafter have been approved by the Board of Directors at their meeting held on 13August 2024.

The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

Figures for the guarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures for the full financial year ended 31 March 2024 and the published year to date figures upto the third guarter of the financial year 2023-24. For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Thiagarajan Kannan)

Managing Director DIN- 10486912

Date: 13 August 2024 Place: Bengaluru

	यूनीवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड CIN:U22222UP2011PLC103611	
	ार्यालयः 19वॉ कि.मी., हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, बुलन्दशहर उत्तर ग्रेरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 87, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाप 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम	
ईपीएस छोड़कर रु. लाख में		ईपीएस छोड़कर रु. लाख में
समेकित	विवरण	स्टैंडएलॉन

नीट:

1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति हारा की गई है तथा 12 अगस्त, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में सेबी (सूचीकखता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार अनुमोदित किया गया है।

साविधिक लेखापरीक्षकों ने 30 जुन, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए खातों की लेखापरीक्षा की है।

पिछली संगत अवधि(ओ) के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहीकृत/पूनर्वयवस्थित किया गया है।

4. उपरोक्त सेबी (सचीबजता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सबेंज में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणाम का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज को वेचसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

5. कॉपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा ''कॉपोरेट प्रजासन में हरित पहल'' के अनुसार, कंपनी भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से संचार मेजेगी। वे सभी सदस्य जिन्होंने अपनी इंमेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ दर्ज या अपडेट नहीं कराई है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना इंसेल पता और उसमें किए गए परिवर्तनों को कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत कराएं।

हस्ता/-साकेत डालमिया प्रबंध निदेशक (डीआईएन: 00083636)

तिथिः	12.08	8.2024	
रथानः	नई	दिल्ली	

8 | प्रति क्षेयर आय (रुं- १०/- प्रति क्षेयर)

(ए) बेसिक

दिनांक: 13/08/2024

00

(बी) डायल्यूटिड

 टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड
CIN: L67190DL1993PLC052050
<b>पंजीकृत कार्यलिय :-</b> ए-२/३, तीसरी मंजिल लूसा टॉवर, आजादपुर, दिल्ली-१००३३

फोन नंबर: 011-27674181,

ईमेल आईडी: titan securities@yahao.com

T	३० जून, २०२४ को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैन्डलोन वित्तीय परिणामों का विवरण								
	(रू. लाख में) ईपीएस को छोड़कर								
			स्टेन	डलोन					
क्रम			समाप्त तिमाही	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	समाप्त वर्ष				
सं.	TUDE VI	30.06.2024 अनअंकेक्षित	31.03.2024 अंकेझित	30.06.2023 अनअंकेशित	31.03.2024 अंकेक्षित				
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	154.76	227.25	34.07	739.58				
.2	अवधि के लिए क्षुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, असाधारण और/या असाधारण मदों पर)	26.00	(12.79)	5,07	138.26				
3	कर पूर्व, अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	26.00	(12.79)	5.07	138.26				
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण मदों के बाद)	19.57	(9.58)	4.04	107.39				
Б	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि सहित) (कर के बाद) अवधि के लिए और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) (नोट 3 देखें)	28.60	(78.19)	61.27	156.05				
.6	मेह-अप इक्वरी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य १०/- प्रति शेयर)	2,501.62	2,501.62	2,501.62	2,501.62				
7	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्याकन रिजर्व को छोड़कर अन्य इक्विटी		÷	-	1,205.75				
	which advance a provide the second advanced	7		1.5					

80.0

80.0

(0.04)

(0.04)

0.02

0.02

0.43

0,43

समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		21	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
30 जून, 2024 अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2024 लेखापरीक्षित	30 जून, 2023 अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2024 लेखापरीक्षित		३० जून, २०२४ अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2024 लेखापरीक्षित	30 जून, 2023 अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2024 लेखापरीक्षित	
922.00	959.00	767.00	3,245.00	प्रचालनों से कुल आय	922.00	959.00	767.00	3,245.00	
765.00	633.00	1,119.00	4,027.00	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	765.00	633.00	1,119.00	4,027.00	
765.00	633.00	1,119.00	4,027.00	अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) तथा एसोसिएट से लाभ के गैर–नियन्त्रणीय ब्याज एवं शेयर से पूर्व, पैरेंट के इक्विटी होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल	(1,010.00)	(4,253.00)	(3,243.00)	(18,697.00)	
578.00	538.00	843.00	3,089.00	अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि), एसोसिएट से लाभ के गैर– नियन्त्रणीय ब्याज एवं शेयर से पूर्व, पैरेंट के इक्विटी होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल	(1,197.00)	(4,348.00)	(3,519.00)	(19,635.00)	
579.00	540.00	843.00	3,092.00	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित)] पैरेंट के इक्विटी होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल	(1,163.00)	(3,811.00)	(3,290.00)	(18,440.00	
1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का फेस वैल्यू)	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	
			60,567.00	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर)				85,264.00	
5.28	4.92	7.70	28.22	बेसिक एवं डाइल्यूटेड आय/(हानि) प्रति शेयर	(10.94)	(39.72)	(32.14)	(179.37	

### टिप्पणीः

1. वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी थी और 13.08.2024 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये हैं तथा कम्पनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने इन परिणामों पर सीमित समीक्षा

2. इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 तथा उसके अंतर्गत संबंधित संशोधन नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (१ अनुसार तैयार किया गया है।

3. विदेशी सहयोगी कंपनी जेपीएफ नीदरलैंड्स बीवी से 17427.59 लाख रुपये का लाभांश प्राप्य घोषित किया गया और वर्ष 2021-22 के दौरान आय में मान्यता दी गई तथा यूरोप में ऊर्जा लागत में वृद्धि, बिक्री और उत्पादन मात्रा के निचले अ लागत में वृद्धि, ओवरहेड्स में वृद्धि और यूरोप में चल रहे संकटों के कारण मांग में कमी के कारण नकदी प्रवाह की कमी के कारण लंबित है। प्रबंधन की राय में, राशि अच्छी है और वसूली योग्य है तथा खातों की पुस्तकों में कोई प्राव आवश्यकता नहीं है, हालांकि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण राशि की प्राप्ति में देरी हुई है।

4. 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आँकड़े पूर्ण वित्त वर्ष के अंकेक्षित आंकड़ों और वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक वर्ष तक के प्रकाशित आंकड़ों के मध्य सन्तुलनकारी आंकड़े हैं।

5. तुलनीय बनाने के लिये जहाँ भी जरुरी हुआ, पूर्व तिमाही/अवधि के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत /पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

	समाप्त वर्ष		३० जून, २०२४ को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित कंसोलिडेटेड वि	वेत्तीय परिणाम							
30 जून, 2023	31 मार्च, 2024	2	(रु. लाख में) ईपीएस को छोड़कर								
अलेखापरीक्षित 767.00 1,119.00	लेखापरीक्षित 3,245.00 4,027.00			कंसोलिइंटेड							
		क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष				
			Iddeal		31.03.2024 अंकेक्षित	30.06.2023 अनअंकेक्षित	31.03.2024 अंकेक्षित				
(3,243.00)	(18,697.00)	1	प्रचालन से कल आय (शृद्ध)	अनअंकेक्षित 154.78	227.25	34.07	739.58				
		2		26.00	(12.79)	5.07	138.26				
		3	कर पूर्व, अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) और सहयोगियों के लाभ में हिस्सा (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	26.00	(12,79)	5.07	138.26				
(3,519.00)	(19,635.00)	4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण मदों के बाद)	281.66	154.26	260.86	1,006.93				
		5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि सहित) (कर के बाद) अवधि के लिए और अन्य न्यापक आय (कर के बाद) (नोट 3 देखें)	290.69	85.65	318.09	1,055.59				
(3,290.00)	(18,440.00)	6	पेड-अप इक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य १०/- प्रति शेयर)	2,501.62	2,501.62	2,501.62	2,501.62				
		7	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर अन्य इक्विटी	-	-	-	6,420.68				
		8	प्रति शेयर आय (रू- १०/- प्रति शेयर)			S					
1,095.00	1,095.00		(ए) बेसिक	1.13	0.62	1.04	4.03				
			(वी) डायल्यूटिड	1.13	0.62	1.04	4.03				
	85,264.00	नोट्		3		894	81 (F)				
(32.14) (179.37) ज परिणामों पर सीमित समीक्षा प्रस्तुत की है। निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के और उत्पादन मात्रा के निचले आधार, उत्पादन खातों की पुस्तकों में कोई प्रावधान करने की		1 2 3 4	कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 13 अगस्त, 2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है। सेबी के विनियमन 33 (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 के संदर्भ में जैसा संशोधित हुआ हे के अनुसार उपरोक्त परिणामों का आँडिट कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है। 3 कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अधध्यादेश 2019 द्वारा पेशा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1158AA के तहत अनुमति दिए गए विकल्प को चुनने के लिए चुना है। तद्अनुसार, कंपनी ने 30.06.2024 को समाप्त उक्त तिमाही के लिए आयकर के प्रावधान को मान्यता दी है और उक्त अनुभाग में निर्धारित दर के आधार पर अलग- अलग कर संतुलन को समाप्त कर दिया है।								
बोर्ड के आदेश से <mark>कृ</mark> ते यूनिवर्सस फोटो ईमैजिंग्स लिमिटेड <del>राज्य</del> (			निर्देशक मंडल के लिए और उसकी ओर से कृते टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड								
हस्ता.∕- शैलेन्द्र सिन्हा (प्रबंध निदेशक)			मंजू सि स्थान : दिल्ली प्रबंध निदे								

प्रबंध निदेशक DIN-00027790

स्थानः गुरुग्राम तिथिः 13.08.2024

DIN-08649186